



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1930 (श10)
(सं0 पटना-454) पटना, बुधवार, 24 सितम्बर 2008

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

30 जून 08

संख्या-1/रा.स्था.(3)-पद.-15/2008-सह. 2684—श्री रामायण चौधरी (24), सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार, पटना की सेवा परियोजना से वापस लेते हुए प्रभार-ग्रहण की तिथि से कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत अपने ही वेतनमान में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 1590 दिनांक 17.04.08 के आलोक में श्री चौधरी, मंत्री, सहकारिता के आप्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे।

इनका मुख्यालय, पटना होगा।

संख्या-1/रा.स्था.(3)-पद.-15/2008-सह. 2685—श्री गंगा नंद मिश्र (34) उप निबंधक, सहयोग समितियों, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत अपने ही वेतनमान में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों, मगध प्रमंडल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनका मुख्यालय गया होगा।

संख्या-1/रा.स्था.(3)-पद.-15/2008-सह. 2686—श्री चक्रधर झा (36) उप निबंधक, सहयोग समितियों, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत अपने ही वेतनमान में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनका मुख्यालय सहरसा होगा।

संख्या-1/रा.स्था.(3)-पद.-15/2008-सह. 2687—श्री वीरेन्द्र कुमार (577) सहायक निबंधक, सहयोग समितियों, मुंगेर अंचल, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार-ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनका मुख्यालय मुजफ्फरपुर होगा।

संख्या-1/रा.स्था.(3)-पद.-15/2008-सह. 2688—श्री अजय कुमार भारती (46वीं बैच), प्रशिक्षु सहायक निबंधक, सहयोग समितियों, भागलपुर अंचल, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए प्रभार-ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियों, मुंगेर अंचल, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनका मुख्यालय मुंगेर होगा।

2. सभी नव पदस्थापित पदाधिकारियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 6(1) के तहत प्रभार-ग्रहण की तिथि से निबंधक, सहयोग समितियों के सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है।

3. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6(2) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों के पद पर पदस्थापित उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा- 11, 26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सभी धाराओं की तथा बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 की एतत् सम्बंधी नियमों के अधीन निबंधक, सहयोग समितियों की शक्तियाँ प्रभार-ग्रहण की तिथि से अपने कार्यक्षेत्र के अधीन प्रयोग करने हेतु प्रदान करते हैं। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना इन शक्तियों का प्रयोग वर्णित अधिनियम की धारा -48 (2) के अंतर्गत निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा अंतरित विवादों के निबटारे के लिए ही किया गया जा सकेगा।

4. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 6(2) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम की धारा-11, 14(10), 26, 41, 44(5), 48 (6 एवं 8) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 37, 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियों की शक्तियाँ प्रभार-ग्रहण की तिथि से प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग अपने कार्यक्षेत्र के अधीन जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक छोड़कर सभी प्रकार की प्राथमिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों के संदर्भ में किया जायेगा।

5. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 6(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सहायक निबंधक, सहयोग समितियों, भागलपुर अंचल, भागलपुर को अधिनियम की धारा- 12, 14 (उप धारा-10 को छोड़कर), 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में और धारा-34, 48 (उप धारा 6 एवं 8 छोड़कर), 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियों की शक्तियों के साथ बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के एतत् सम्बंधी निबंधक, सहयोग समितियों की शक्तियाँ प्रभार-ग्रहण की तिथि से प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 454-571+10-डी0टी0पी0।